



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1946 (श10)

(सं० पटना 1230) पटना, शुक्रवार, 27 दिसम्बर 2024

सं० 03/नमामि गंगे-02-13/2024-9993/न०वि०एवंआ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

20 दिसम्बर 2024

विषय :- नमामि गंगे योजना (100% सेन्ट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत जमुई नगर परिषद् में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 80,99,83,750/- रुपये (अस्सी करोड़ निन्यानवे लाख तेरासी हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 77,39,85,000/- रुपये (सतहत्तर करोड़ उनचालिस लाख पचासी हजार रुपये मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से देय सेंटेज की राशि कुल 3,59,98,750/-रुपये (तीन करोड़ उनसठ लाख अनठानवे हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति।

जमुई नगर परिषद् क्षेत्र के अर्न्तगत सभी घरों/प्रतिष्ठानों से आने वाले सिवेज को ट्रीटमेंट के उपरांत प्रवाह किया जाना है, ताकि गंगा नदी की सहायक किउल नदी में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। भूमि की उपलब्धता के आधार पर इंटरसेप्शन एवं डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डी०पी०आर० तैयार कर एन०एम०सी०जी० भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। एन०एम०सी०जी० के पत्रांक Pr-22014/9/2022/NMCG दिनांक 11.07.2023 द्वारा लागत व्यय 77,39,85,000/- रुपये (सतहत्तर करोड़ उनचालिस लाख पचासी हजार रुपये मात्र) पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है, जिसे सेंटेज के रूप में 3,59,98,750/- रुपये (तीन करोड़ उनसठ लाख अनठानवे हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) देय है। जमुई इंटरसेप्शन एवं डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटयोजना जमुई नगर परिषद् में प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 80,99,83,750/- रुपये (अस्सी करोड़ निन्यानवे लाख तेरासी हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) सेंटेज सहित है। योजना का क्रियान्वयन एन०एम०सी०जी० से स्वीकृति के शर्तों के अधीन किया जायेगा। उक्त योजना का प्रमुख घटक निम्नवत् है:-

| क्र०सं० | मुख्य घटक | संख्या |
|---------|--|----------|
| 1. | 2 अद्द सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास (क्षमता 7 MLD, 6 MLD) | 13 MLD |
| 2. | इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन | 3433 मी० |
| 3. | ट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज ड्रेन | 302 मी० |

| क्र०सं० | मुख्य घटक | संख्या |
|---------|--------------------------------|----------|
| 4. | सिवेज पम्पिंग स्टेशन (01 अद्द) | 3.5 MLD |
| 5. | सिवर ट्रेन | 2560 मी० |
| 6. | संचालन एवं रख-रखाव | 15 वर्ष |

2. जमुई एक महत्वपूर्ण शहर है, जो किउल नदी के किनारे अवस्थित है। जमुई नगर परिषद में 30 वार्ड है, जिसकी आबादी वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार 87357 है। किउल नदी गंगा की सहायक नदी है। आज यह शहर काफी तेजी से विकास कर रहा है। गंगा नदी लगभग 445 कि० मी० की लम्बाई में बिहार से गुजरती है। किउल नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी या इसके सहायक नदियों के किनारे अवस्थित किसी शहर के अनट्रीटेज सिवेज को गंगा नदी/सहायक नदियों में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जमुई नगर परिषद क्षेत्र में इन्टरसेप्शन एवं डाईभन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2055 तक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस परियोजना के माध्यम से लगभग सभी घरों को लाभ मिलेगा। जमुई शहर के सभी आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सीवेज को इन्टरसेप्शन एवं डाईभर्सन के जरिये सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जायेगा। निर्धारित मापदण्ड अनुसार सिवेज को शोधित कर कृषि एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा। जमुई शहर में दो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी कुल क्षमता 13 MLD है एवं 3433 मीटर इन्टरसेप्शन एंड डायवर्सन, 2560 मीटर का सिवर पाईपलाईन एवं एक सिवेज पम्पिंग स्टेशन निर्माण किया जाना है। इस योजना को कुल 24 महीनों में पूरा किया जाना है। सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं आई० एण्ड डी० कार्य के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों इसका रख-रखाव किया जाना है।

3. यह योजना नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्र संपोषित है। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या—एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक-25.01.2016 के अनुरूप सेंटेंज की राशि कुल 3,59,98,750/— रुपये (तीन करोड़ उनसठ लाख अनठानवे हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। योजना में कुल राशि 80,99,83,750/— रुपये (अस्सी करोड़ निन्यानवे लाख तेरासी हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) का व्यय संभावित है। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

(राशि रुपये में)

| क्र० सं० | वित्तीय वर्ष | योजना की राशि | राज्यांश सेंटेंज राशि (Up to 10.00 Cr.-7%) (Above 10.00 Cr.-5%) | वित्तीय वर्ष में कुल राशि |
|----------|--------------|-----------------|---|---------------------------|
| 1 | 2024-25 | 10,00,00,000.00 | 70,00,000.00 | 10,70,00,000.00 |
| 2 | 2025-26 | 31,73,03,000.00 | 1,29,83,250.00 | 33,02,86,250.00 |
| 3 | 2026-27 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 4 | 2027-28 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 5 | 2028-29 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 6 | 2029-30 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 7 | 2030-31 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 8 | 2031-32 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 9 | 2032-33 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 10 | 2033-34 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 11 | 2034-35 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 12 | 2035-36 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 13 | 2036-37 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 14 | 2037-38 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 15 | 2038-39 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 16 | 2039-40 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| 17 | 2040-41 | 2,37,78,800.00 | 10,67,700.00 | 2,48,46,500.00 |
| कुल राशि | | 77,39,85,000.00 | 3,59,98,750.00 | 80,99,83,750.00 |

4. संचालन एवं रख-रखाव:- इस परियोजना का ऑपरेशन एण्ड मेंटेनेन्स 15 वर्ष तक संवेदक द्वारा ही किया जाना है। तत्पश्चात् परियोजना के ऑपरेशन एण्ड मेंटेनेन्स का व्यय राज्य सरकार/नगर परिषद, जमुई द्वारा वहन किया जायेगा। नमामि गंगे योजना के अधीन निर्माण किये जाने वाले इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना मद में राशि एन0एम0सी0जी0 द्वारा दी जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से बुडको को उपलब्ध कराया जायेगा। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार एवं बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति को बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बुडको राज्य सरकार का एक उपक्रम है।

5. परियोजना के अनुमानित लागत का 100: वहन नमामि गंगे योजना, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा, जो भारत सरकार द्वारा सीधे बैंक खाता में हस्तांतरित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सेंटेज मद की राशि का वहन किया जायेगा। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या- एम-4-26/2013/653/वि० पटना, दिनांक-25.01.2016 के अनुरूप सेंटेज की राशि 3,59,98,750/- रुपये (तीन करोड़ उनसठ लाख अनठानवे हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। योजना में कुल राशि 80,99,83,750/- रुपये (अस्सी करोड़ निन्यानवे लाख तेरासी हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) का व्यय संभावित है। इस योजना में राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जाएगा :-

- (i) मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-106-वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण-उप शीर्ष-0302-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215021060302 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।
- (ii) मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-0305-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215027960305 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0305.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।
- (iii) मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई-उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उप शीर्ष-0303-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-48-2215027890303 विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान, 0303.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण, PFMS Code-9152 के अंतर्गत की जायेगी।

6. अतः उक्त के आलोक में नमामि गंगे योजना (100% सेन्ट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत जमुई नगर परिषद् में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 80,99,83,750/- रुपये (अस्सी करोड़ निन्यानवे लाख तेरासी हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 77,39,85,000/- रुपये (सतहत्तर करोड़ उनचालिस लाख पचासी हजार रुपये मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से देय सेंटेज की राशि कुल 3,59,98,750/- रुपये (तीन करोड़ उनसठ लाख अनठानवे हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

7. उपर्युक्त कड़िका-06 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 19.12.2024 की बैठक में मद सं० 33 में स्वीकृति दी गई है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,
अभय कुमार सिंह
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1230-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>